

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 जनवरी 2024-पौष 22, शक 1945

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी (बुरा रमेश बाबू) पुत्री चिनुकु (Chinuku) का पुराना नाम (चिनुकु) बदल गया है. अतः भविष्य में उन्हें कोलीपाका नायरा (Kolipaka Nyra) के नाम से पहचाना जाए. साथ ही उनके सरकारी और अन्य दस्तावेजों में उनका नाम कोलीपाका नायरा (Kolipaka Nyra) लिखा व समझा जाए.

भवदीय

पिता-बुरा रमेश बाबू,

पता-ई-1, आर.आई.ई. कैम्पस,

श्यामला हिल्स, भोपाल.

(G-36)

नाम परिवर्तन

मैं, रईस खां पुत्र श्री वहीद खां, निवासी-पटवारी मोहल्ला, ग्राम-देवनगर, देहगांव, जिला रायसेन, मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम मदीया था जिसमें संशोधन करवा कर अरूबा करवाया गया था, परन्तु स्कूल के रिकार्ड में उसका नाम मदीया बी (Madiya Bee) ही है जो कि उसकी शैक्षणिक रिकार्ड में दर्ज है. आज दिनांक से मेरी पुत्री को मदीया बी (Madiya Bee) पढ़ा, लिखा व समझा जाये.

प्रार्थी

(रहीस)

(G-37)

नाम परिवर्तन

शपथकर्ता मैं, आनन्द पिता बुद्दलाल उम्र- 32 साल, जाति-गौड, निवासी ग्राम-औरिया, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) मेरा नाम शैक्षणिक दस्तावेजों में आनन्द पिता बुद्दलाल लिखा है, किंतु मेरा आधार कार्ड व मतदाता परिचय-पत्र में मेरा नाम आनन्द कुमार उईके पिता बुद्दलाल उईके लिखा है. जिसे मेरा आधार कार्ड व परिचय-पत्र में मैं, अपना नाम सुधार कराकर मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों के अलावा अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम आनन्द पिता बुद्दलाल ही लिखा जावे दर्ज किया जावे, पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(आनन्द कुमार उईके)

नया नाम
(आनन्द)

(G-38)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम Aaliya Sheikh D/o Nazeer Sheikh M/o Shabnam स्कूल के दस्तावेज पर त्रुटिवश अंकित हो गया है जबकि मेरी पुत्री के सही नाम की स्पेलिंग Aaliya Shaikh D/o Nazeer Shaikh M/o Sabara Shaikh है जो कि सही व सत्य है.

प्रार्थी
(साबरा शेख)
W/o नजिर शेख
पता-म. नं. 9, साई बाबा नगर,
अरेरा कॉलोनी, भोपाल.

(G-39)

CHANGE OF NAME

I, Dharendra Urmaliya S/o Shri Yamuna Prasad Urmaliya, Resident of E-8/47-48, Aditi Apartment, Rajiv Gandhi College Road, Trilanga, Bhopal (M.P.). My Son is Sajag Tripathi S/o Dharendra Urmaliya and Mother is Mrs. Aarti Urmaliya, in My Son's School, My Name is Registered as Dharendra Tripathi and My Wife's Name is Registered As Mrs. Aarti Tripathi, Which is wrong. I want to correct the above information, Hence, Enter my Correct Name As Dharendra Urmaliya and the Correct Name of my wife As Mrs. Aarti Urmaliya. Which is also Recorded in My Son's Birth Certificate. The Above information is true and correct and in case of any Dispute, full Responsibility will be Mine.

प्रार्थी
(Dharendra Urmaliya)

(G-40)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अनिल कुमार त्रिवेदी पुत्र श्री चन्द्रभूषण त्रिवेदी है तथा मेरा सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजों में अनिल त्रिवेदी त्रुटिवश: लिखा हुआ है. मेरा सही नाम अनिल कुमार त्रिवेदी सही एवं सत्य है. भविष्य में मैं इसी नाम से अनिल कुमार त्रिवेदी, जाना/पहचाना जाऊंगा.

पुराना नाम
(अनिल कुमार)

नया नाम
(अनिल कुमार त्रिवेदी)
पता- म.नं. 1269, यादव कालोनी, गढ़ा रोड,
वार्ड नं. 31, स्वामी विवेकानंद वार्ड,
जबलपुर (म.प्र.).

(G-41)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को मैं, साध्वी जयश्री दीदी यह वैधानिक रूप से सूचित करती हूँ कि पूर्व में मेरा नाम जयश्री बेन पटेल पिता वालजी पटेल था, जो कि समस्त व्यवहारिक जगत में जाना जाता था, अब से व्यवहारिक जगत में, समस्त कानूनी एवं सरकारी दस्तावेजों में मेरा नाम जयश्री दीदी के नाम से जाना जाएगा एवं गुरु/माता का नाम भारती दीदी जाना जाएगा.

पुराना नाम

(जयश्री बेन पटेल)

पिता-वालजी पटेल

(G-42)

नया नाम

(साध्वी जयश्री दीदी)

गुरु/माता भारती दीदी

CHANGE OF NAME

I, S R John S/o A S L John, Simon Raphael John S/o Antoany Luis John, Saiman S/o A S L John, Saimon John S/o A S L John, born on 14-10-1952 residing at 2924, Infront of St. Joseph School, Chandan Colony, Ranjhi, Manegaon, Jabalpur, MP 482005, have Changed my name to S R JOHN S/o ANTHONY LUIS JOHN.

Old Name :

(S R JOHN)

S/o A S L John,

Saiman Rapael John S/o Antoany Luis John

Siman S/o A S L John

Simon John S/o A S L John

(G-43)

New Name :

(S R JOHN)

S/o Anthony Luis John,

Address: 2924, Infront of Joseph School,

Chandan Colony, Ranjhi,

Manegaon, Jabalpur Madhya Pradesh.

CHANGE OF NAME

I, am Rajesh Kumar Jain S/o Shri Chotey Lal Jain, E-8/123, Shivakunj Railway Housing society Bhopal, I myself am Posted in Railway Department CRWS Nishatpura, PF No. 45306172908 that my name is recorded in my service record as Rajesh Kumar, which is other Rajesh kumar Jain is registered in the documents Aadhar card, PAN card Both the Names are mine, it is correct and true that I should be Known and Known as Rajesh Kumar Jain.

Old Name :

(RAJESH KUMAR)

(G-44)

New Name :

(RAJESH KUMAR JAIN)**नाम परिवर्तन**

मैं, वंदना पिता महादेव वलुकर वर्तमान में नाम है उक्त नाम के स्थान पर "सुनिता पति रमेश निंबुलकर" का नाम परिवर्तन कर मेरा नया नाम "सुनिता पति रमेश निंबुलकर" कर रही हूँ, प्रकाशन उपरांत मुझे नये नाम "सुनिता पति रमेश निंबुलकर" के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम

(वंदना वलुकर)

(G-45)

नया नाम

(सुनिता निंबुलकर)

सौंसर.

नाम परिवर्तन

सर्व साधारण को मैं, साध्वी नमस्वी दीदी यह वैधानिक रूप से सूचित करती हूँ कि पूर्व में मेरा नाम नीता बेन शांतिलाल सामानी पिता शांतिलाल सामानी था, जो कि समस्त व्यवहारिक जगत में जाना जाता था, अब से व्यवहारिक जगत में, समस्त कानूनी एवं सरकारी दस्तावेजों में मेरा नाम नमस्वी दीदी से जाना जाएगा एवं गुरु / माता का नाम भारती दीदी जाना जाएगा.

पुराना नाम

नया नाम

(नीता बेन शांतिलाल सामानी)

(साध्वी नमस्वी दीदी)

पिता-शांतिलाल सामानी

गुरु/माता भारती दीदी

(G-46)

नाम परिवर्तन

मैं, डिम्पल भद्रेचा पूर्व में मेरा नाम रामदेवी था तथा अब मुझे डिम्पल भद्रेचा के नाम से जाना एवं पहचाना जाता है. इस विज्ञप्ति के उपरांत मुझे डिम्पल भद्रेचा के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जावे. डिम्पल भद्रेचा एवं रामदेवी दोनों मेरे ही नाम हैं, भविष्य में इस नाम से सम्बन्धित कोई भी विवाद की जवाबदारी मेरी होगी.

पुराना नाम

नया नाम

(रामदेवी)

(डिम्पल भद्रेचा)

(Ramdevi)

(Dimple Bhadrecha)

निवासी - 55, बी फ्लैट न. 102,

पिप्लीयाना, इंदौर (म.प्र.).

(G-47)

नाम परिवर्तन

मैं, रमेश राम पिता स्व. श्री सर्वण सिंह, निवासी म.नं. 1276, नई बस्ती, ग्राम भैसाखेडी, इंदौर रोड, भोपाल मध्यप्रदेश में मेरा नाम सर्विस रिकार्ड एवं अन्य शासकीय दस्तावेजों में रमेश राम पिता स्व. सर्वण सिंह है और आधार-कार्ड, वोटर-कार्ड में मेरा नाम रमेश सिंह पिता स्व. सर्वण सिंह है. यह दोनों नाम मेरे ही होकर एक ही व्यक्ति के दर्ज हैं. मैं, इन्हीं नामों से जाना व पहचाना जाता हूँ.

भविष्य में रमेश सिंह पिता स्व. सर्वण सिंह इसी नाम से जाना व पहचाना एवं दर्ज किया जाए.

पुराना नाम

नया नाम

(रमेश राम)

(रमेश सिंह)

पिता स्व. श्री सर्वण सिंह

पिता स्व. श्री सर्वण सिंह

(G-48)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रहलाद चौधरी पिता नानुराम जी सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि, मेरा सही, वास्तविक एवं प्रचलित नाम प्रहलाद चौधरी है, मेरी एक जीवन बीमा पॉलिसी है जिस जीवन बीमा पॉलिसी में मेरा नाम त्रुटिवश कैलाश चन्द्र चौधरी लिखा हुआ है. मेरा सही एवं वास्तविक नाम प्रहलाद चौधरी ही है तथा मुझे भविष्य में प्रहलाद चौधरी के नाम से ही जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम

नया नाम

(कैलाश चन्द्र चौधरी)

(प्रहलाद चौधरी)

(G-49)

नाम परिवर्तन

मैं, रामदुलारी अनघोरे पत्नी श्री नरेश कुमार अनघोरे, निवासी ग्राम—माण्डवी तहसील आठनेर, जिला बैतूल (म.प्र.) मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम रामदुलारी अनघोरे दर्ज है किन्तु मेरी पुत्री शिखा अनघोरे के समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम सरिता अनघोरे दर्ज हो गया है जिसे बदलकर रामदुलारी अनघोरे समस्त दस्तावेजों में पढ़ा—लिखा व समझा जाये.

पुराना नाम

(सरिता अनघोरे)

(G-50)

नया नाम

(रामदुलारी अनघोरे)

उप नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम आदिव देशपांडे पिता मंदार देशपांडे था, जिसे मैं परिवर्तित कर आदिव भोरास्कर माता मनाली भोरास्कर करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पति से मेरा—विधिवत् तलाक हो चुका है और न्यायालय द्वारा मेरे पुत्र की कस्टडी उसकी प्राकृतिक माता मनाली भोरास्कर को दी है तथा इसी कारण मैं अपने पुत्र के नाम के साथ मेरा व मेरे मायके का उपनाम/सरनेम दर्ज करवाना चाहती हूँ तथा आगे से मेरे पुत्र को आदिव भोरास्कर माता मनाली भोरास्कर के नाम से ही जाना, पहचाना जावे.

(G-51)

पालनकर्ता

मनाली भोरास्कर

पिता अच्युत भोरास्कर.

नाम परिवर्तन

मेरा नाम ग्रीष्मा जैन (Greeshama Jain) आत्मजा श्री अरविन्द कुमार जैन मेरे अभिलेखों में दर्ज है को मैंने अब परिवर्तन कर ग्रीष्मा जैन (Greeshma Jain) आत्मजा श्री अरविन्द कुमार जैन निवासी—65—अ विकास कुंज, त्रिलंगा, भोपाल कर लिया गया है. अब भविष्य में इस प्रकाशन के उपरांत मेरे नाम की अंग्रेजी वर्तनी ग्रीष्मा जैन Greeshma Jain ही लिखा, पढ़ा एवं जाना—पहचाना जावेगा.

पुराना नाम

(ग्रीष्मा जैन)

(Greeshama Jain)

(G-52)

नया नाम

(ग्रीष्मा जैन)

(Greeshma Jain)

आत्मजा—श्री अरविन्द कुमार जैन.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुलभ कुमार चौधरी (Sulabh Kumar Chaudhary) पिता श्री दुर्गा प्रसाद चौधरी, निवासी—जवाहर नगर, गली न. 6 सतना जिला सतना (म.प्र.) मेरे शैक्षणिक अभिलेखों में मेरा नाम सुलभ चौधरी, व पिता का नाम दुर्गेश कुमार चौधरी एवं माता का नाम आशा चौधरी लिखा है जो त्रुटिपूर्ण है.

अतः मेरा सही नाम सुलभ कुमार चौधरी (Sulabh Kumar Chaudhary) पिता का नाम दुर्गा प्रसाद चौधरी (Durga Prasad Chaudhary)) व माता का नाम आशा नीलम ((Asha Neelam) से जाना व पहचाना व लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(सुलभ कुमार चौधरी)

(Sulabh Kumar Chaudhary)

(G-53)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चन्द्र स्वरूप राय पिता स्व. बी.एल.राय, निवासी – 96 श्यामा पल्ली, अवधपुरी, भोपाल (म.प्र.) मेरी पुत्री का नाम जन्म प्रमाण-पत्र के अनुसार देवप्रिया राय है, जबकि आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में दृष्टि राय अंकित है ! इसलिए आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज व शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में नाम परिवर्तन कर देवप्रिया के नाम से जाना, पहचाना जावे.

अभिभावक

पिता-(चन्द्र स्वरूप राय)

(G-54)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Tikeshwari Gurbele पिता Madan Lal Gurbele निवासी वार्ड नं. 24, नियर विवेक ज्योति स्कूल इंदिरा नगर बालाघाट (म.प्र.) मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड ड्रायवींग लाईसेंस में, मेरा नाम Tikeshwari Gurbele हैं जो कि सही है किन्तु त्रुटिवश शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम Tikeshwary अंकित हो गया है इसलिए सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में नाम परिवर्तित कर Tikeshwari Gurbele दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(TIKESHWARY)

नया नाम

(TIKESHWARI GURBELE)

(G-55)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम गिरिजा विश्वकर्मा (Girija Vishwakarma) दर्ज है और कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम गेंदा विश्वकर्मा (Gainda Vishwakarma) दर्ज है. गिरिजा विश्वकर्मा (Girija Vishwakarma) एवं गेंदा विश्वकर्मा (Gainda Vishwakarma) दोनों नाम मुझे एक ही महिला के नाम हैं. अतः मुझे मेरे सही नाम गेंदा बाई विश्वकर्मा (Genda Bai Vishwakarma)के नाम से जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(गिरिजा विश्वकर्मा)

(Girija Vishwakarma)

नया नाम

(गेंदा बाई विश्वकर्मा)

(Genda Bai Vishwakarma)

निवासी- 33, लक्ष्मीपुरी, इन्द्रप्रस्थ,

हिनौतिया, चांदबड़, भोपाल.

(G-56)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती पूजा चौधरी पति प्रवीण चौधरी, निवासी महेन्द्रवाड़ी पोस्ट तहसील, घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल (म.प्र.) मैं विवाह से पूर्व अपना नाम पूजा अहिरवार पिता गंगाराम अहिरवार लिखती थी. तथा यहीं नाम मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में दर्ज है. इसलिए अब मैं अपना नाम श्रीमती पूजा चौधरी पति प्रवीण चौधरी लिखती हूँ, अब मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना संबोधित एवं आगे लिखा, जाना-पहचाना जाये.

पुराना नाम

(पूजा अहिरवार)

पिता-गंगाराम अहिरवार

नया नाम

(पूजा चौधरी)

पति-प्रवीण चौधरी

(G-57)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम रूचि पाठक (Ruchi Pathak) को परिवर्तित कर मेरा नया नाम श्रीमती अम्बा पाठक (Amba Pathak) हो गया है. मेरे पूर्व दस्तावेजों में मेरा नाम रूचि पाठक (Ruchi Pathak) के स्थान पर नया नाम श्रीमती अम्बा पाठक (Amba Pathak) लिखा-पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रूचि पाठक)

नया नाम
(अम्बा पाठक)

(G-58)

नाम परिवर्तन

मैं, धर्मेन्द्र पंवार (Dharmendra Panwar) निवासी-ग्राम अरलावदा, तहसील हाटपीपल्या, जिला-देवास, मध्यप्रदेश मेरे पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम धापू पंवार अंकित हो गया है. जो कि सही नहीं है. उसके समस्त दस्तावेजों में उसका सही नाम हर्षिता पंवार (Harshita Panwar) आत्मज श्री धर्मेन्द्र पंवार (Dharmendra Panwar) अंकित है एवं यही नाम मैं उसके आधार कार्ड में संशोधित कर मेरी पुत्री को इसी नाम से जाना-पहचाना, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(धापू पंवार)
(Dhapu Panwar)
पिता-धर्मेन्द्र पंवार
(Dhamendra Panwar)

नया नाम
(हर्षिता पंवार)
(Harshita Panwar)
धर्मेन्द्र पंवार
(Dharmendra Panwar)

(G-59)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद अबरार (Mohammad Abrar) पिता स्व. श्री अब्दुल रज्जाक (Late Abdul Razzaq) निवासी - मकान नं. 2402/1, सरफाबाद, शास्त्री वार्ड, अमन चौक, आनंद नगर जिला जबलपुर, मेरी सेवा-पुस्तिका में मेरा नाम मो. अबरार (Mo. Abrar) दर्ज है. मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड व वोटर आईडी में मेरा नाम मोहम्मद अबरार (Mohammad Abrar) दर्ज है जो कि सही है. मो. अबरार (Mo. Abrar) एवं मोहम्मद अबरार (Mohammad Abrar) यह दोनों नाम एक ही व्यक्ति यानि मेरे हैं. मेरे शासकीय अभिलेखों में सही नाम (Mohammad Abrar) पिता स्व. श्री अब्दुल रज्जाक (Late Abdul Razzaq) के नाम से जाना, पहचाना एवं पढ़ा लिखा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(मो. अबरार)
(Mo. Abrar)

नया नाम
(मोहम्मद अबरार)
(Mohammad Abrar)

(G-60)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती खुशी चंदानी पत्नी श्री प्रकाश चंदानी, आयु 39 वर्ष, निवासी-म. नं. 100, SRG New Fort, अवधपुरी, भोपाल म. प्र. मेरा विवाह श्री प्रकाश चंदानी के साथ सम्पन्न हुआ है. यह कि विवाह के पूर्व मुझे निर्मला राव पुत्री श्री विजय बहादुर राव के नाम से जाना एवं पहचाना जाता था. विवाह पश्चात मुझे श्रीमती खुशी चंदानी पत्नी श्री प्रकाश चंदानी के नाम से जाना एवं पहचाना जाता है. भविष्य में भी मुझे श्रीमती खुशी चंदानी पत्नी श्री प्रकाश चंदानी के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा, पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(निर्मला राव)
विजय बहादुर राव

नया नाम
(खुशी चंदानी)
पत्नी-श्री प्रकाश चंदानी
(Khushi Chandani)
W/o Prakash Chandani.

(G-61)

नाम परिवर्तन

मैं, जीतराम टोप्पो Jeetram Toppo पिता स्व. लथिरा टोप्पो, निवासी— म. नं. 2355, पुरानी बस्ती, लंगड़, किराना स्टोर (गांधी चौक) मानेगांव, रांझी, जबलपुर, म. प्र. मेरी सेवा—पुस्तिका में मेरा नाम जीतराम दर्ज है. शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम जीतराम टोप्पो दर्ज है. जो कि सही है. जीतराम एवं जीतराम टोप्पो ये दोनों मेरे ही नाम हैं. किसी अन्य व्यक्ति के नहीं है. मेरे शासकीय अभिलेखों में सही नाम जीतराम टोप्पो पिता स्व. लथिरा टोप्पो के नाम से जाना, पहचाना, पढ़ा—लिखा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(जीतराम)
(Jeetram)

नया नाम
(जीतराम टोप्पो)
(Jeetram Toppo)

(G-62)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कमलेश भील पिता दिलीप भील Kamlesh Bhil S/o Dilip Bhil, निवासी—ग्राम ढाबलामाता, तहसील इछावर, जिला—सीहोर (मध्यप्रदेश) मेरे समस्त दस्तावेजों में उपरोक्त नाम यानि कमलेश भील ही अंकित है, जो सही है किन्तु मेरे आधारकार्ड क्रमांक में त्रुटिवश सिंगाड़ रामसिंह दिलीपसिंह Singad Ramsingh Dilip Singh का नाम हो गया. मेरे सही नाम कमलेश भील पिता श्री दिलीप भील (Kamlesh Bhi S/o Dilip Bhil) आधार कार्ड में लिखा, पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सिंगाड़ रामसिंह)
पिता—दिलीप सिंह

नया नाम
(कमलेश भील)
पिता—दिलीप भील

(G-63)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम दुर्गावती तेकाम/दुर्गावती सिंह/दुर्गा सिंह एवं दुर्गा तेकाम मुझ एक ही महिला के नाम हैं, अतः मुझे नये नाम दुर्गावती तेकाम सिंह से जाना—पहचाना जावे.

भवदीय
(दुर्गावती तेकाम सिंह)

A/25, श्रद्धा सत्यसाई होम्स, बैरागढ़ कला,
तहसील हुजूर, भोपाल

(G-64)

नाम परिवर्तन

मैं, शुभम रैदास पिता स्व. किशनलाल रैदास, माँ श्रीमती लक्ष्मी रैदास पत्नी स्व. किशनलाल रैदास, सभी निवासी— 337, पाटन रोड, करमेता जिला जबलपुर, म. प्र. मेरे पिता जी स्व. किशन लाल रैदास पिता स्व. रूपलाल रैदास जो कि शासकीय संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जबलपुर में भृत्य के पद पर पदस्थ थे. जिनके शासकीय सर्विस बुक एवं अन्य शासकीय दस्तावेजों में उनका नाम किशुनलाल रैदास दर्ज है जबकि उनके आधारकार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक एवं अन्य दस्तावेजों में उनका नाम किशन लाल रैदास के नाम से दर्ज है जो कि सत्य एवं सही है. किशुनलाल रैदास एवं किशन लाल रैदास दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे पिता स्व. किशन लाल रैदास के ही हैं. इसलिये मेरे एवं पिता जी के सभी दस्तावेजों में किशन लाल रैदास को किशुन लाल रैदास के नाम से ही पढ़ा एवं समझा जावे.

आवेदक
(शुभम रैदास)

(G-65)

CHANGE OF NAME

That is to inform all that before marriage My Name was HEMA AHUJA Daughter of Shri SURESH KUMAR AHUJA and after marriage solemnized My Name RISHIKA SHEWANI wife of Shri MOHIT SHEWANI. I should be known by new name RISHIKA SHEWANI wife of Shri MOHIT SHEWANI.

Old Name

(HEMA AHUJA)

D/o Suresh Kumar Ahuja

New Name

(RISHIKA SHEWANI)

W/o Mohit Shewani

Add:-House No. 5, Shradha Satyasai Homes,
Bairagarh Kalan, Bairagarh Bhopal (M.P.).

(G-66)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम RAJ ADITYA SINGH S/O RAJENDRA SINGH था. जो मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड एवं शैक्षणिक व अन्य शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है. मैंने अपना नाम बदलकर RRAJ SIINGH S/O RAJENDRA SINGH रख लिया है. जो कि मेरे ड्रायविंग लायसेंस में दर्ज है. अतः इस सूचना प्रकाशन उपरांत मुझे RRAJ SIINGH S/O RAJENDRA SINGH के नाम से ही जाना, पहचाना, पढ़ा, लिखा जावे. व मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नया नाम RRAJ SIINGH S/O RAJENDRA SINGH दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(RAJ ADITYA SINGH)

नया नाम

(RRAJ SIINGH)

S/o Rajendra Singh

R/o:-MIG-154, Madhav Nagar,
Opp. A. G. Office, Gwalior (M.P.).

(G-67)

नाम परिवर्तन

मैं, राकेश यादव पिता कंवरलाल यादव मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका व नाम छाया यादव अंकित हो गया था. जबकि सही नाम तनु यादव है. अतः भविष्य में सभी शैक्षणिक व शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री का नाम तनु यादव के नाम से जाना, पहचाना, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(छाया यादव)

नया नाम

(तनु यादव)

पिता-राकेश यादव.

(G-68)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम नजमुद्दीन सैफुद्दीन (Najmuddin Saifuddin) था, जो कि अब परिवर्तित कर नजमुद्दीन सैफुद्दीन बवाहीर (Najmuddin Saifuddin Bawahir) कर लिया गया है. अतः भविष्य में मुझे अब इसी नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

(नजमुद्दीन सैफुद्दीन)

नया नाम

(नजमुद्दीन सैफुद्दीन बवाहीर)

(G-69)

नाम परिवर्तन

मैं, पप्पू सिंह यादव (PAPPU SINGH YADAV) पुत्र मोती सिंह सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे घर का पूर्व का नाम सुरेश सिंह यादव (SURESH SINGH YADAV) था. जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिखा गया है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, पप्पू सिंह यादव के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ एवं जाऊँगा. जो मेरे आधारकार्ड, पेनकार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम सुरेश सिंह यादव के स्थान पर पप्पू सिंह यादव लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(सुरेश सिंह यादव)

नया नाम
(पप्पू सिंह यादव)

पुत्र—मोती सिंह,
ग्राम—वरा लक्ष्मीपुरा बोड़ापुर पुरानी छावनी,
मोतीझील, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-70)

नाम परिवर्तन

मैं, अंशिजा सेठ (ANSHIJA SETH) पुत्री अजय गुप्ता सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे घर का पूर्व का नाम आयुषी गुप्ता (AYUSHI GUPTA) था. जो मेरे UTI MUTUAL FUND में लिखा गया है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, अंशिजा सेठ के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ एवं जाऊँगी. जो मेरे आधारकार्ड, पेनकार्ड, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः मेरे UTI MUTUAL FUND में मेरा नाम आयुषी गुप्ता के स्थान पर अंशिजा सेठ लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(आयुषी गुप्ता)

नया नाम
(अंशिजा सेठ)
पुत्री—अजय गुप्ता,
वार्ड नं. 35, लाल कोठी, फिजिकल मार्ग,
शिवपुरी (म.प्र.).

(G-71)

CHANGE OF NAME

I, Ovi Omkar Prabhudesai W/o Mr. Omkar Parshuram Prabhudesai, R/o E-19, Laxman Nagar, Sant Hirdaram Nagar (Bairagarh), Bhopal (M.P.), hereby declare that before marriage my name was Ku. Lavina Murjani D/o Mr. Suresh Kumar Murjani. I got married according to Hindu customs with Mr. Omkar Parshuram Prabhudesai & after Marriage my name has been changed as Mrs. Ovi Omkar Prabhudesai W/o Mr. Omkar Parshuram Prabhudesai, after marriage I Known as Mrs. Ovi Omkar Prabhudesai W/o Mr. Omkar Parshuram Prabhudesai for all purposes on every records.

Old Name
(LAVINA MURJANI)

New Name
(OVI OMKAR PRABHUDESAI)

(G-72)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम व्योम लालवानी (VYOM LALWANI) पिता श्री जयकुमार लालवानी था, जो कि मेरे प्रमाण पत्रों पर अंकित हो गया है, जिसको मैंने परिवर्तित कर व्योम हितेश साधवानी (VYOM HITESH SADHWANI) कर लिया है, अतः भविष्य में मुझे व्योम हितेश साधवानी के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

(व्योम साधवानी)

पिता—श्री हितेश साधवानी,
पता—57, जावरा, कम्पाउंड, इन्दौर (म.प्र.).

(G-73)

नाम परिवर्तन

मैं, सीमा कुलश्रेष्ठ पुत्री श्री पी. डी. मिश्रा, निवासी-505-6A, सागर लाईफस्टाईल टावर, मिसरोद, भोपाल. यह कि मेरा पूर्व दस्तावेजों में नाम सीमा रानी कुलश्रेष्ठ (Seema Rani Kulshreshth) था. अब मेरा नाम बदलकर वर्तमान में सीमा कुलश्रेष्ठ (Seema Kulshreshth) हो गया है. भविष्य में मुझे सीमा कुलश्रेष्ठ (Seema Kulshreshth) D/o P.D. MISHRA के नाम से जानी व पहचानी जावे.

पुराना नाम
(सीमा रानी कुलश्रेष्ठ)
(Seema Rani Kulshreshth)
(G-74)

नया नाम
(सीमा कुलश्रेष्ठ)
(Seema Kulshreshth)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा घर का बोलता नाम कृतिका नीमा (KRATIKA NEEMA) था, जो कि मेरे कुछ शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों पर लिखा गया है. जबकि मेरा वास्तविक व सही नाम कृति नीमा (KRATI NEEMA) पिता श्री प्रमोद नीमा है. जो कि मेरे पेनकार्ड, आधारकार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची पर भी अंकित है. अतः भविष्य में मुझे मेरे वास्तविक नाम कृति नीमा (KRATI NEEMA) पिता श्री प्रमोद नीमा के नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(कृतिका नीमा)
(KRATIKA NEEMA)
(G-75)

नया नाम
(कृति नीमा)
(KRATI NEEMA)
पिता-श्री प्रमोद नीमा,
पता-47, जूना पीठा, मेन रोड,
इंदौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

हम संदीप कुमार शुक्ला एवं नीलम शुक्ला अपने पुत्र अर्क शुक्ला (Ark Shukla) का नाम परिवर्तन कर-मृत्युंजय शुक्ला (Mrityunjay Shukla) रखना चाहते हैं. अर्क शुक्ला (Ark Shukla) उसके सभी शिक्षा रिकार्ड, शासकीय, अर्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. इस विज्ञप्ति के बाद मेरे पुत्र को-मृत्युंजय शुक्ला (Mrityunjay Shukla) के नाम से सभी शासकीय/अर्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में जाना-पहचाना, लिखा, पढ़ा एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम
(अर्क शुक्ला)
(Ark Shukla)

नया नाम
(मृत्युंजय शुक्ला)
(Mrityunjay Shukla)
पुत्र-संदीप कुमार शुक्ला एवं नीलम शुक्ला.

(G-76)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शैलेश पिता ओमप्रकाश देसाई, मेरा पुत्र निकुंज, आयु 15 वर्ष है. मेरे पुत्र का नाम स्कूल रिकार्ड व आधार कार्ड में निकुंज शाह के पश्चात् गाजियन में कीर्ति शाह लिखा है. मैं, निकुंज का नैसर्गिक पिता संरक्षक हूँ. नाबालिग निकुंज के नाम के पश्चात् पिता एवं संरक्षक के रूप में शैलेश देसाई अंकित करवाना चाहता हूँ. अब मेरे पुत्र का नाम निकुंज कीर्ति शाह के स्थान पर निकुंज शैलेश देसाई के नाम से जाना-पहचाना जावेगा.

(शैलेश ओमप्रकाश देसाई)
(G-77)

106, श्रीराम अपार्टमेन्ट, लालबाग रोड,
तहसील व जिला बुरहानपुर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, Aastha Soni here by declare that, my maiden Name was Ritu Sharma D/o Ratanlal Sharma. But now After my marriage, I have changed my Name as Ritu Sharma To Aastha Soni W/o Astitva Soni. So from now and in future I will be known as Aastha Soni for all purposes.

Old Name
(RITU SHARMA)
D/o Ratanlal Sharma

New Name
(AASTHA SONI)
W/o Astitva Soni
Add:-720-B, Usha Nagar, Extension,
Indore (M.P.).

(G-78)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम कुमारी अम्बुजा द्विवेदी पिता श्री विनोद द्विवेदी (AMBUJA DWIVEDI DAUGHTER OF VINOD KUMAR DWIVEDI) था, जिसे मैंने मेरा नाम बदलकर श्रीमती अदिति बाहेती पति श्री रचित बाहेती (ADITI BAHETI WIFE OF Mr. RACHIT BAHETI) कर लिया है, अब मेरा सही नाम श्रीमती अदिति बाहेती पति श्री रचित बाहेती (ADITI BAHETI WIFE OF MR RACHIT BAHETI) लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(कुमारी अम्बुजा द्विवेदी)

नया नाम
(अदिति बाहेती)

(G-79)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/S. Giriraj Industries Registered Office at 100 Sector B, Udhyog Puri, Dewas Road, Ujjain 456001 (M.P.) and Registration No is 07/33/01/0013/16, Dated 23-04-2016. which was constituted vide Partnership deed executed on 19-10-2011.

In this Partnership firm subsequently following changes have occurred on 23-01-2016, Shri Chandra Shekhar Yadav S/o Shri Pratap Singh Yadav has voluntarily retired from the Partnership firm and Shri Lakhan Loya S/o. Shri Dilip Loya has joined the firm as a new partner.

Now 1. Shri Ram Loya and 2. Shri Lakhan Loya are the running Partners of the Partnership firm.

M/S. GIRIRAJ INDUSTRIES,
(RAM LOYA)
(Partner).

(G-80)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि विवाह पूर्व मेरा नाम संगीता पितलिया (SANGEETA PITLIA) पिता श्री चन्दनलाल पितलिया जाति जैन था, जो की मेरे पैन कार्ड पर दर्ज है, किन्तु मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर मेरा नाम संगीता जैन तो कुछ पर संगीता पितलिया दर्ज है. श्री प्रवती शेखर नागोरी से विवाह उपरान्त अब मेरा नाम परिवर्तित होकर संगीता नागोरी (SANGEETA NAGORI) हो गया है, जो मेरे आधार कार्ड पर भी अंकित है, अतः भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम संगीता नागोरी (SANGEETA NAGORI) पत्नी श्री प्रवती शेखर नागोरी के नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(संगीता पितलिया (जैन))
(SANGEETA PITLIA [JAIN])

नया नाम
(संगीता नागोरी)
(SANGEETA NAGORI)
पत्नी—श्री प्रवती शेखर नागोरी,
पता—85, तिलक नगर, एक्सटेंशन,
इंदौर (म.प्र.).

(G-81)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम देवेश शाक्य (DEVESH SHAKYA) पिता श्री जुगल किशोर शाक्य था, जो की मेरे आधारकार्ड, पैनकार्ड एवं मेरी अंकसूची व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है, जिसको मैंने परिवर्तित कर देवेश सिंह (DEVESH SINGH) कर लिया है, अतः भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम देवेश सिंह (DEVESH SINGH) के नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे एवं मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में जहां पर भी उपनाम शाक्य दर्ज है, उसे शाक्य के स्थान पर सिंह पढ़ा-लिखा व समझा जावे.

पुराना नाम
(देवेश शाक्य)
(DEVESH SHAKYA)

नया नाम
(देवेश सिंह)
(DEVESH SINGH)
पता-45-सी, इन्द्रपुरी बस्ती, भंवरकुआ,
इंदौर (म.प्र.).

(G-82)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम गोरदन लोधी (GORDAN LODHI) पिता श्री दशरथ लोधी था, जो की मेरी अंकसूची पर अंकित है, किन्तु मैंने अपना नाम परिवर्तित कर गोविन्द लोधी (GOVIND LODHI) पिता श्री दशरथ लोधी कर लिया है, जो मेरे आधारकार्ड, वोटर कार्ड एवं पैनकार्ड पर भी अंकित है, अतः भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम गोविन्द लोधी (GOVIND LODHI) पिता श्री दशरथ लोधी के नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(गोरदन लोधी)
(GORDAN LODHI)

नया नाम
(गोविन्द लोधी)
(GOVIND LODHI)
पिता-श्री दशरथ लोधी,
पता-82, प्रजापत नगर,
इंदौर (म.प्र.).

(G-83)

नाम परिवर्तन

मैं, महेन्द्र पाटीदार पुत्र स्व. श्री जमनाप्रसाद पाटीदार, आयु 49 वर्ष, निवासी-मकान नंबर 3666, कुमार मोहल्ला, वार्ड नंबर-52, मिसरोद, तहसील कोलार, जिला भोपाल मध्यप्रदेश. मेरा वर्तमान नाम महेन्द्र पाटीदार है तथा मैं, भविष्य में मेरा नाम सभी दस्तावेजों में सियाराम पाटीदार करवाना चाहता हूँ तथा भविष्य में मैं, इसी नाम से पहचाना जाऊंगा.

प्रार्थी

(सियाराम पाटीदार)

(G-84)

नाम परिवर्तन

मैं, जीजी बाई पटेल पत्नी श्री चंद्रभान, निवासी-69/1, पटेल मोहल्ला सर्रा, ग्राम सर्रा इतवार बाजार, पिपरिया, नर्मदापुरम मध्यप्रदेश मैंने अपना नाम ज्योति (Jyoti) से बदलकर जीजी बाई पटेल (Jiji Bai Patel) कर दिया है. अतः मैं, जीजी बाई पटेल (Jiji Bai Patel) पत्नी चंद्रभान के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम
(ज्योति)
(JYOTI)

नया नाम
(जीजी बाई पटेल)
(JJI BAI PATEL)

(G-85)

नाम परिवर्तन

मैं, तुलसी राम पिता हिम्मी प्रसाद साहू सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे कुछ दस्तावेजों जैसे-आई.डी.बी.आई. फ्लैक्सी बॉण्ड तथा शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम तोडर प्रसाद साहू लिखा है, जबकि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम तुलसी राम दर्ज है, जो कि दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे स्वयं के हैं। अतः मुझे तुलसी राम पिता हिम्मी प्रसाद साहू के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा, लिखा, दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(तोडर प्रसाद साहू)
(TODAR PRASAD SAHU)

नया नाम
(तुलसी राम)
(TULSI RAM)
पता-म.नं. 160, ग्राम हिनौतिया (पिपरिया)
मनकेडी, जबलपुर (म.प्र.).

(G-86)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गोविन्द प्रसाद शर्मा, (GOVIND PRASAD SHARMA) आ. श्री हरि प्रसाद शर्मा, निवासी-एच.आई.जी. 234, एल सेक्टर, अयोध्या नगर, भोपाल मध्यप्रदेश मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम गोविन्द प्रसाद आ. हरि प्रसाद अंकित है। जबकि अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम गोविन्द प्रसाद शर्मा (GOVIND PRASAD SHARMA) अंकित है, मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों(अंकसूचियों) में मेरा नाम गोविन्द प्रसाद शर्मा (GOVIND PRASAD SHARMA) पढ़ा व माना जावे। भविष्य में मुझे गोविन्द प्रसाद शर्मा आ. श्री हरि प्रसाद शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जावेगा।

पुराना नाम
(गोविन्द प्रसाद)
(GOVIND PRASAD)
आ. श्री हरि प्रसाद

नया नाम
(गोविन्द प्रसाद शर्मा)
(GOVIND PRASAD SHARMA)
आ. श्री हरि प्रसाद शर्मा.

(G-87)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पूर्व के शैक्षणिक तथा अन्य दस्तावेजों में नाम संजीव कुमार मेहता (SANJIV KUMAR MEHTA) आ. श्री धरमपाल मेहता अंकित है, मेरा नाम परिवर्तित होकर संजीव मेहता (SANJIV MEHTA) आ0 श्री धरमपाल मेहता, निवासी-188, इन्ड्स एम्पायर, त्रिलंगा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल मध्यप्रदेश हो गया है, अब संजीव मेहता (SANJIV MEHTA) आ. श्री धरमपाल मेहता के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा एवं भविष्य में मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों आदि में परिवर्तित नाम संजीव मेहता (SANJIV MEHTA) आ. श्री धरमपाल मेहता लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(संजीव कुमार मेहता)
(SANJIV KUMAR MEHTA)
पुत्री-श्री धरमपाल मेहता.

नया नाम
(संजीव मेहता)
(SANJIV MEHTA)
पुत्र-श्री धरमपाल मेहता.

(G-88)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पूर्व के शैक्षणिक तथा अन्य दस्तावेजों में नाम विनायक मेहता (VINAYAK MEHTA) आ. संजीव कुमार मेहता अंकित है, मेरा नाम परिवर्तित होकर विनायक मेहता (VINAYAK MEHTA) आ. संजीव मेहता, निवासी-188, इन्ड्स एम्पायर, त्रिलंगा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल मध्यप्रदेश हो गया है, अब विनायक मेहता (VINAYAK MEHTA) आ. संजीव मेहता के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा एवं भविष्य में मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों आदि में परिवर्तित नाम विनायक मेहता (VINAYAK MEHTA) आ. श्री संजीव मेहता लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(विनायक मेहता)
(VINAYAK MEHTA)
पुत्री-श्री संजीव कुमार मेहता.

नया नाम
(विनायक मेहता)
(VINAYAK MEHTA)
पुत्र-श्री संजीव मेहता.

(G-89)

उपनाम परिवर्तन

सूचित हो कि मेरे अवयस्क पुत्र का नाम प्रथम राजोरे पिता सुनील राजोरे है. मेरा विवाह विच्छेद हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत मेरे पति सुनील राजोरे से माननीय कुटुम्ब न्यायालय इंदौर से हो चुका है. अब मैं, अपने अवयस्क पुत्र के उपनाम को राजोरे के स्थान पर पचोरिया उपनाम परिवर्तित करना चाहती हूँ, अतः अब भविष्य में मेरे अवयस्क पुत्र का नाम प्रथम पचोरिया होगा एवं भविष्य में भी इसी नाम से पहचाना जायेगा.

पालनकर्ता—(माताजी—निशा पचोरिया)

पता—फ्लेट नंबर 202, अमर मीट्रो अपार्टमेन्ट 22/1,
पगनिस्पगा, इन्दौर (म.प्र.).

(G-90)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधारकार्ड एवं मेरे विवाह प्रमाण—पत्र में मेरा नाम द्रष्टि यादव पति—राजा यादव अंकित है जो सही है. लेकिन मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में डोरथी जोसफ पुत्री—फ्रांसिस जोसफ अंकित है. विवाह उपरांत मुझे द्रष्टि यादव पति राजा यादव के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(डोरथी जोसफ)

पुत्री—फ्रांसिस जोसफ

नया नाम

(द्रष्टि यादव)

पति—राजा यादव.

(G-91)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संध्या पाठक पति नितेश पाठक, निवासी—ग्राम पांडाडो, पोस्ट पीलीकरार, तहसील बुदनी, जिला सिहोर मध्यप्रदेश. मेरे शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार संध्या पाठक है. जो कि सही हैं. जबकि आधारकार्ड में मेरे नाम के साथ सरनेम न लिखकर त्रुटिवश संध्या अंकित है. इसलिए आधारकार्ड में नाम परिवर्तित कर संध्या पाठक दर्ज किया जावे.

आवेदक

(संध्या पाठक)

(G-92)

उपनाम परिवर्तन

मैं, रामकली बाई उर्फ रामाबाई दांगी पत्नी श्री घनश्याम सिंह जाति दांगी, निवासी—ग्राम छीरखेड़ा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा मध्यप्रदेश. मेरे आधारकार्ड में मेरा नाम रामकली बाई अंकित है. जबकि पूर्व में मुझे रामा बाई दांगी के नाम से अपनी ससुराल में जाना जाता था. अब मैं, अपना नाम रामाबाई दांगी लिखने लगी हूँ और अब मुझे रामकली बाई के स्थान पर रामा बाई दांगी (RAMA BAI DANGI) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

(रामकली बाई)

(RAMKALI BAI)

नया नाम

(रामा बाई दांगी)

(RAMA BAI DANGI)

पत्नी—श्री घनश्याम सिंह

(G-93)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरा वास्तविक व सही नाम पंकज पाण्डे पिता अशोक पाण्डे (PANKAJ PANDAY S/o ASHOK PANDAY) है तथा मेरे आधारकार्ड एवं पैनकार्ड पर भी मेरा यही नाम पंकज पाण्डे पिता अशोक पाण्डे (PANKAJ PANDAY S/o ASHOK PANDAY) दर्ज/अंकित है तथा मेरे सर्विस रिकार्ड एवं पेंशन रिकार्ड तथा शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम पंकज कुमार पाण्डे पिता अशोक कुमार पाण्डे (PANKAJ KUMAR PANDAY S/o ASHOK KUMAR PANDAY) दर्ज/अंकित है. उक्तानुसार दो नाम क्रमशः पंकज पाण्डे पिता अशोक पाण्डे (PANKAJ PANDAY S/o ASHOK PANDAY) एवं पंकज कुमार पाण्डे पिता अशोक कुमार पाण्डे (PANKAJ KUMAR PANDAY S/o ASHOK KUMAR PANDAY) है उपरोक्त दोनों ही नाम मेरे होकर एक ही व्यक्ति के नाम हैं तथा वर्तमान व भविष्य में पंकज पाण्डे पिता अशोक पाण्डे (PANKAJ PANDAY S/o ASHOK PANDAY) जाना व पहचाना जावे।

(पंकज पाण्डे)

पिता-अशोक पाण्डे

पता-85, कुम्हार खाड़ी,

इन्दौर (म.प्र.).

(G-94)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि FOUR SQUARE INFRA, पता-प्लॉट नं. 08, एफ-04, रिंग गार्डन को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी करोंद भोपाल 462001 पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0509/23, दिनांक 13-03-2023 है. फर्म के भागीदार श्री मोहम्मद मुर्तजा पुत्र श्री इस्माइल खान, निवासी-24 हैमिल्टन कोर्ट, एयरपोर्ट रोड, लालघाटी, भोपाल की मृत्यु दिनांक 05-09-2023 को हो गई है. दिनांक 13-12-2023 को श्रीमती लुबना रशीद पत्नि स्वर्गीय श्री मोहम्मद मुर्तजा निवासी-24 हैमिल्टन कोर्ट एयरपोर्ट रोड, लालघाटी, भोपाल को भागीदारी फर्म में सम्मिलित किया गया.

For-FOUR SQUARE INFRA,

(संजय इंगलें)

(Partner)

पता-प्लॉट नं. 08, एफ-04, रिंग गार्डन

को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी,

करोंद, भोपाल (म.प्र.).

(G-95)

CHANGE OF SURNAME

I, Aayushi Solanki D/o Indrapal Singh Solanki wife of Jaipal Singh Panwar, Residence of Gram-Lohari, Post-Bhomwada Lohari, Khargone (M.P.) hereby declare that my maiden Name was AAYUSHI SOLANKI but after my marriage, I have Changed my Name as AAYUSHI SOLANKI to AAYUSHI PANWAR. So from then and in future I will be known as AAYUSHI PANWAR.

Old Name

(AAYUSHI SOLANKI)

New Name

(AAYUSHI PANWAR)

W/o Jaipal Singh Panwar

R/o-Gram-Lohari, Post-Bhomwada Lohari,

Khargone (M.P.).

(G-96)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा, जिला-खण्डवा, मध्यप्रदेश
प्र. क्र. 0002/बी-113 (1)/2023-24.

खण्डवा, दिनांक 20 जुलाई, 2023

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास
नियम 1962, के नियम 5 (1) के अंतर्गत]

जैसा कि हरीशचंद्र पिता करसन पटेल, निवासी ग्राम बामझर, तहसील खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 9 अगस्त 2023 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयवधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता	: “श्री रेवा गुर्जर समाज मांगलिक भवन न्यास”, ग्राम बामझर तहसील व जिला खण्डवा.
चल सम्पत्ति	: 5,000/- (शब्दों में पांच हजार) नगद.
अचल सम्पत्ति	: निरंक.

अरविंद कुमार चौहान, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(G-97)

कार्यालय, नजूल अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, गोविंदपुरा वृत्त, जिला-भोपाल, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2023

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत]
समक्ष रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

क्र. 344-रीडर-2023.-आवेदक श्री जयकुमार कुशवाह, अध्यक्ष, निवासी बी-1, नवीन नगर, भोपाल एकेडमी स्कूल के पास, ऐशबाग, भोपाल द्वारा "श्री शंकर मंदिर हिनोतिया काष्ठियान ट्रस्ट" को ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शायी गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है।

2. एतद्वारा, सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 24-01-2024 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या संपत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उपयुक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	—	"श्री शंकर मंदिर हिनोतिया काछियान ट्रस्ट"
कार्यालय का पता	—	"श्री शंकर मंदिर, हिनोतिया काछियान, नियर संगम टेन्ट हाऊस, 80 फिट रोड, चांदबड़, वार्ड 38, नरेला खसरा क्रमांक 68, 70 एवं 75 जिला भोपाल (म.प्र.) 462010.
अचल संपत्ति	—	निरंक
चल संपत्ति	—	निरंक

(G-98)

रवीश श्रीवास्तव, अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 11 दिसम्बर 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2023/1570.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/311, सीहोर, दिनांक 13-03-2016 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गादर, तहसील बुधनी, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1750, दिनांक 13-02-2012 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री ए. के. सीठा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर, संस्था के पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पंद्रह- 1 सी, दिनांक 29-07-99 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गादर, तहसील बुधनी, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1750, दिनांक 13-02-2012 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गादर, तहसील बुधनी, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1750, दिनांक 13-02-2012 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-99)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2023/1571.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/167, सीहोर दिनांक 09-02-2016 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चारमण्डली, तहसील इछावर, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1752, दिनांक 24-02-2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री ए. के. सीठा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर, संस्था के पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पंद्रह- 1 सी, दिनांक 29-07-99 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चारमण्डली, तहसील इछावर, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1752, दिनांक 24-02-2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, इस आदेश के दिनांक से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चारमण्डली, तहसील इछावर, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1752, दिनांक 24-02-2014 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-100)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2023/1572.-इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/403, सीहोर दिनांक 22-04-2016 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जहाजपुर, तहसील बुधनी, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1686, दिनांक 01-01-2013 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री ए. के. सीटा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर, संस्था के पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा की गई है। परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पंद्रह- 1 सी, दिनांक 29-07-99 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जहाजपुर, तहसील बुधनी, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1686, दिनांक 01-01-2013 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, इस आदेश के दिनांक से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जहाजपुर, तहसील बुधनी, जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1686, दिनांक 01-01-2013 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-101)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2023/1573.-इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/403, सीहोर दिनांक 22-04-2016 के द्वारा शिवा बीज उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, बायां, तहसील बुधनी, जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1768, दिनांक 09-05-2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री ए. के. सीटा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर, संस्था के पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा की गई है। परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पंद्रह- 1 सी, दिनांक 29-07-99 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान अनुसार शिवा बीज उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, बायां, तहसील बुधनी, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1768, दिनांक 09-05-2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, इस आदेश के दिनांक से शिवा बीज उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, बायां, तहसील बुधनी, जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1768, दिनांक 09-05-2014 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-102)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2023/1574.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/60, सीहोर दिनांक 14-01-2016 के द्वारा अन्नदाता बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पलासीकलां, तहसील भैरूदा, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1597, दिनांक 21-02-2012 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री ए. के. सीटा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर, संस्था के पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पंद्रह- 1 सी, दिनांक 29-07-99 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान अनुसार अन्नदाता बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पलासीकलां, तहसील भैरूदा, जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1597, दिनांक 21-02-2012 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, इस आदेश के दिनांक से अन्नदाता बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पलासीकलां, तहसील भैरूदा, जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1597, दिनांक 21-02-2012 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-103)

सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 जनवरी 2024—पौष 22, शक 1945

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)